



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2014/वैशाख 19, 1936

No. 255]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2014/VAISAKHA 19, 1936

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 328(अ).—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 74 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में आगे और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :-

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 के नियम 35 में उप-नियम (4) के बाद निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

“(5) कपड़ों में लिपटे हुए पार्सल को निश्चित रूप से या तो डिब्बे (कार्टन) में बन्द किया जाए अथवा इसे लपेटे हुए कपड़े के आवरण पर कागज अथवा प्लास्टिक के रैपर से कवर किया जाए ताकि ट्रैक एवं ट्रेस के प्रयोजन से पार्सल पर बार कोड स्टीकर को उचित तरीके से चिपकाया जा सके।”

[फा. सं. 27-107/2013-पीओ]

अमिताभ खर्कवाल, उप महानिदेशक (पीओ एवं सीपी)

टिप्पणी : 1 जनवरी, 1975 तक यथा संशोधित मूल नियमों को डाक एवं तार मैनुअल वाल्यूम-1 विधायी अधिनियमन भाग-1 पंचम संस्करण में प्रकाशित किया गया था तथा अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 738(अ), दिनांक - 18 नवम्बर, 2013 के तहत किया गया।

1. सा.का.नि. 2888, दिनांक 19 दिसम्बर 1975	46. सा.का.नि.829(अ), दिनांक 15 सितम्बर 1987
2. सा.का.नि. 596(अ), दिनांक 30 दिसम्बर 1975	47. सा.का.नि.976(अ), दिनांक 9 नवम्बर 1987
3. सा.का.नि.741(अ), दिनांक 31 दिसम्बर 1975	48. सा.का.नि.1(अ), दिनांक 1 जनवरी 1988
4. सा.का.नि.472 दिनांक 24 जनवरी 1976	49. सा.का.नि. 2(अ), दिनांक 1 जनवरी 1988
5. सा.का.नि. 93(अ), दिनांक 25 फरवरी 1976	50. सा.का.नि. 55(अ), दिनांक 15 जनवरी 1988
6. सा.का.नि. 811(अ), दिनांक 31 मई 1976	51. सा.का.नि.212 (अ), दिनांक 26 फरवरी 1988
7. सा.का.नि.943 (अ), दिनांक 21 जून 1976	52. सा.का.नि.344(अ), दिनांक 4 मार्च 1988
8. सा.का.नि.135(अ), दिनांक 7 जनवरी 1978	53 सा.का.नि.388 (अ), दिनांक 14 अप्रैल 1988
9. सा.का.नि.304(अ), दिनांक 29 मई 1978	54. सा.का.नि.462(अ), दिनांक 2 मई 1988
10. सा.का.नि.316(अ), दिनांक 18 मई 1979	55. सा.का.नि.639(अ), दिनांक 23 मई 1988
11. सा.का.नि.4118(अ), दिनांक 29 दिसम्बर 1979	56. सा.का.नि.683 दिनांक 7 जून 1988
12. सा.का.नि.1256(अ), दिनांक 13 मई 1980	57. सा.का.नि.624(अ), दिनांक 29 जून 1988
13. सा.का.नि.490(अ), दिनांक 26 जून 1980	58 सा.का.नि.633(अ), दिनांक 1 जुलाई 1988
14. सा.का.नि.491(अ), दिनांक 26 जून 1980	59 सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 8 जुलाई 1988
15. सा.का.नि.380(अ), दिनांक 5 जून 1981	60 सा.का.नि.866(अ), दिनांक 26 सितम्बर 1988
16. सा.का.नि.409(अ), दिनांक 26 सितम्बर 1981	61. सा.का.नि.1022(अ), दिनांक 31 दिसम्बर 1988
17. सा.का.नि.59(अ), दिनांक 11 फरवरी 1982	62. सा.का.नि.14(अ), दिनांक 4 जनवरी 1989
18. सा.का.नि.411(अ), दिनांक 13 मई 1982	63. सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 10 जनवरी 1989
19. सा.का.नि.417(अ), दिनांक 22 मई 1982	64. सा.का.नि. 180(अ), दिनांक 24 फरवरी 1989
20. सा.का.नि.520(अ), दिनांक 10 अगस्त 1982	65. सा.का.नि.223(अ), दिनांक 28 फरवरी 1989
21. सा.का.नि. 33(अ), दिनांक 20 जनवरी 1983	66. सा.का.नि.180(अ), दिनांक 1 मार्च 1989
22. सा.का.नि.49(अ), दिनांक 2 फरवरी 1983	67. सा.का.नि.314(अ), दिनांक 1 मई 1989
23. सा.का.नि.92(अ), दिनांक 21 मार्च 1983	68. सा.का.नि. 435(अ), दिनांक 9 जून 1989
24. सा.का.नि.444(अ), दिनांक 23 मार्च 1983	69. सा.का.नि.478(अ), दिनांक 24 जून 1989
25. सा.का.नि.37(अ), दिनांक 17 जनवरी 1984	70. सा.का.नि.639(अ), दिनांक 26 अगस्त 1989
26. सा.का.नि.1652(अ), दिनांक 19 मई 1984	71. सा.का.नि.804(अ), दिनांक 12 अक्टूबर 1989
27. सा.का.नि.637(अ), दिनांक 16 अप्रैल 1986	72. सा.का.नि. 821(अ), दिनांक 16 अक्टूबर 1989
28. सा.का.नि.329 दिनांक 3 मई 1986	73. सा.का.नि. 898 दिनांक 2 दिसम्बर 1989
29. सा.का.नि.461 दिनांक 14 जून 1986	74. सा.का.नि. 965 दिनांक 12 दिसम्बर 1989
30. सा.का.नि. 2420(अ), दिनांक 28 जून 1986	75. सा.का.नि. 1077(अ), दिनांक 29 दिसम्बर 1989
31. सा.का.नि.436(अ), दिनांक 24 जुलाई 1986	76. सा.का.नि. 1078(अ), दिनांक 29 दिसम्बर 1989
32. सा.का.नि.2460(अ), दिनांक 24 जुलाई 1986	77. सा.का.नि. 967(अ), दिनांक 30 दिसम्बर 1989
33. सा.का.नि.3677(अ), दिनांक 25 अक्टूबर 1986	78. सा.का.नि. 198(अ), दिनांक 5 फरवरी 1990
34. सा.का.नि.1333(अ), दिनांक 29 दिसम्बर 1986	79. सा.का.नि.100(अ), दिनांक 1 मार्च 1990
35. सा.का.नि.85(अ), दिनांक 6 फरवरी 1987	80. सा.का.नि. 197(अ), दिनांक 5 मार्च 1990
36. सा.का.नि.548(अ), दिनांक 28 फरवरी 1987	81. सा.का.नि. 312(अ), दिनांक 5 अप्रैल 1990
37. सा.का.नि.379(अ), दिनांक 10 अप्रैल 1987	82. सा.का.नि.358(अ), दिनांक 30 अप्रैल 1990
38. सा.का.नि.265(अ), दिनांक 11 अप्रैल 1987	83. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 11 मई 1990
39. सा.का.नि.480(अ), दिनांक 29 अप्रैल 1987	84. सा.का.नि. 544(अ), दिनांक 5 जून 1990
40. सा.का.नि.531(अ), दिनांक 27 मई 1987	85. सा.का.नि. 545(अ), दिनांक 5 जून 1990
41. सा.का.नि.438(अ), दिनांक 6 जून 1987	86. सा.का.नि.783(अ), दिनांक 13 जून 1990
42. सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 27 अगस्त 1987	87. सा.का.नि.68(अ), दिनांक 10 अगस्त 1990
43. सा.का.नि. 688 दिनांक 30 अगस्त 1987	88. सा.का.नि.628(अ), दिनांक 18 अगस्त 1990
44. सा.का.नि. 807(अ), दिनांक 2 सितम्बर 1987	89. सा.का.नि.671(अ), दिनांक 31 अगस्त 1990
45. सा.का.नि.823(अ), दिनांक 15 सितम्बर 1987	90. सा.का.नि. 694(अ), दिनांक 11 सितम्बर 1990

91. सा.का.नि.783(अ), दिनांक 12 अक्टूबर 1990	136. सा.का.नि.345(अ), दिनांक 13 मई 1999
92. सा.का.नि. 918(अ), दिनांक 28 नवम्बर 1990	137. सा.का.नि. 357(अ), दिनांक 27 अप्रैल 2000
93. सा.का.नि.622(अ), दिनांक 20 सितम्बर 1991	138. सा.का.नि. 672(अ), दिनांक 25 अगस्त 2000
94. सा.का.नि. 178(अ), दिनांक 6 अप्रैल 1992	139. सा.का.नि. 71(अ), दिनांक 7 फरवरी 2001
95. सा.का.नि.79(अ), दिनांक 4 जनवरी 1993	140. सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 24 मई 2001
96. सा.का.नि.259(अ), दिनांक 5 मार्च 1993	141. सा.का.नि. 7(अ), दिनांक 3 जनवरी 2002
97. सा.का.नि.420(अ), दिनांक 17 मई 1993	142. सा.का.नि. 23(अ), दिनांक 11 जनवरी 2002
98. सा.का.नि.615(अ), दिनांक 20 सितम्बर 1993	143. सा.का.नि. 366(अ), दिनांक 14 मई 2002
99. सा.का.नि.616(अ), दिनांक 16 सितम्बर 1993	144. सा.का.नि. 381(अ), दिनांक 24 मई 2002
100. सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 27 दिसम्बर 1993	145. सा.का.नि. 612(अ), दिनांक 2 सितम्बर 2002
101. सा.का.नि.43(अ), दिनांक 21 जनवरी 1994	146. सा.का.नि. 637(अ), दिनांक 11 सितम्बर 2002
102. सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 18 फरवरी 1994	147. सा.का.नि. 705(अ), दिनांक 4 सितम्बर 2003
103. सा.का.नि.152(अ), दिनांक 26 मार्च 1994	148. सा.का.नि. 514(अ), दिनांक 10 अगस्त 2004
104. सा.का.नि.484(अ), दिनांक 2 जून 1994	149. सा.का.नि.670(अ), दिनांक 14 अक्टूबर 2004
105. सा.का.नि.502(अ), दिनांक 8 जून 1994	150. सा.का.नि. 292(अ), दिनांक 19 मई 2005
106. सा.का.नि.793(अ), दिनांक 7 नवम्बर 1994	151. सा.का.नि. 30(अ), दिनांक 20 जनवरी 2006
107. सा.का.नि. 836(अ), दिनांक 5 दिसम्बर 1994	152. सा.का.नि. 466(अ), दिनांक 8 अगस्त 2006
108. सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 21 दिसम्बर 1994	153. सा.का.नि. 487(अ), दिनांक 18 अगस्त 2006
109. सा.का.नि. 873(अ), दिनांक 21 दिसम्बर 1994	154. सा.का.नि. 663(अ), दिनांक 25 अक्टूबर 2006
110. सा.का.नि. 931(अ), दिनांक 26 दिसम्बर 1994	155. सा.का.नि. 210(अ), दिनांक 20 मार्च 2007
111. सा.का.नि. 121(अ), दिनांक 24 फरवरी 1995	156. सा.का.नि. 511(अ), दिनांक 27 जुलाई 2007
112. सा.का.नि. 342(अ), दिनांक 18 अप्रैल 1995	157. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 3 अगस्त 2007
113. सा.का.नि. 484(अ), दिनांक 14 जून 1995	158. सा.का.नि. 775(अ), दिनांक 18 दिसम्बर 2007
114. सा.का.नि. 736(अ), दिनांक 13 नवम्बर 1995	159. सा.का.नि. 22(अ), दिनांक 9 जनवरी 2008
115. सा.का.नि. 737(अ), दिनांक 13 नवम्बर 1995	160. सा.का.नि. 59(अ), दिनांक 25 जनवरी 2008
116. सा.का.नि. 926(अ), दिनांक 20 नवम्बर 1995	161. सा.का.नि. 238(अ), दिनांक 28 मार्च 2008
117. सा.का.नि. 764(अ), दिनांक 29 नवम्बर 1995	162. सा.का.नि. 400(अ), दिनांक 25 मई 2008
118. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 7 दिसम्बर 1995	163. सा.का.नि. 588(अ), दिनांक 11 अगस्त 2008
119. सा.का.नि. 201(अ), दिनांक 7 मई 1996	164. सा.का.नि. 864(अ), दिनांक 18 दिसम्बर 2008
120. सा.का.नि. 372(अ), दिनांक 21 अगस्त 1996	165. सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 9 फरवरी 2009
121. सा.का.नि. 27(अ), दिनांक 18 सितम्बर 1996	166. सा.का.नि. 282(अ), दिनांक 24 अप्रैल 2009
122. सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 6 दिसम्बर 1996	167. सा.का.नि. 789(अ), दिनांक 28 अक्टूबर 2009
123. सा.का.नि. 573(अ), दिनांक 18 दिसम्बर 1996	168. सा.का.नि. 310(अ), दिनांक 12 अप्रैल 2010
124. सा.का.नि. 267(अ), दिनांक 19 मई 1997	169. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 5 मई 2010
125. सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 30 मई 1997	170. सा.का.नि. 408(अ), दिनांक 17 मई 2010
126. सा.का.नि. 318(अ), दिनांक 10 जून 1997	171. सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 16 जून 2010
127. सा.का.नि. 351(अ), दिनांक 26 जून 1997	172. सा.का.नि.10(अ), दिनांक 4 जनवरी 2011
128. सा.का.नि. 723(अ), दिनांक 26 दिसम्बर 1997	173. सा.का.नि. 37(अ), दिनांक 19 जनवरी 2011
129. सा.का.नि. 41(अ), दिनांक 21 जनवरी 1998	174. सा.का.नि. 58(अ), दिनांक 31 जनवरी 2011
130. सा.का.नि. 42(अ), दिनांक 21 जनवरी 1998	175. सा.का.नि. 63(अ), दिनांक 3 फरवरी 2011
131. सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 26 जुलाई 1998	176. सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 1 अक्टूबर 2012
132. सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 19 अगस्त 1998	177. सा.का.नि. 1211(अ), दिनांक 13 मई 2012
133. सा.का.नि. 40(अ), दिनांक 21 जनवरी 1999	178. सा.का.नि. 648(अ), दिनांक 23 सितम्बर 2013
134. सा.का.नि. 46(अ), दिनांक 22 जनवरी 1999	179. सा.का.नि. 738(अ), दिनांक 18 नवम्बर 2013
135. सा.का.नि. 77(अ), दिनांक 9 फरवरी 1999	

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 328(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section(2) of section 21 read with section 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Post Office Rules, 1933 in rule 35 after sub- rule (4), the following sub- rule shall be inserted, namely:-

“(5) A parcel wrapped with cloth should invariably either be packed in a carton or be covered with paper or plastic wrapper over the cloth wrapping so that the bar code sticker can be properly affixed on the parcel for track and trace purpose”.

(F. No. 27-107/2013-PO)

AMITABH KHARKWAL, Dy .Director General (PO&CP)

Note: The principal rules as amended up to the 1st January, 1975 were published in the Posts and Telegraphs Manual Volume - I, Legislative Enactments, Part I, Fifth Edition and last amended vide notification number GSR,738 (E) dated – 18th November 2013.

1. G.S.R. 2888, dated the 19th December, 1975	46. G.S.R.829(E), dated the 15th September, 1987
2. G.S.R. 596 (E), dated the 30th December, 1975	47. G.S.R.976(E), dated the 9th November, 1987
3. G.S.R. 741 (E) , dated the 31st December, 1975	48. G.S.R. 1 (E), dated the 1st January, 1988
4. G.S.R. 472, dated the 24th January, 1976	49. G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 1988
5. G.S.R. 93 (E), dated the 25th February, 1976	50. G.S.R. 55(E), dated 15th January, 1988
6. G.S.R. 811 (E), dated the 31st May, 1976	51. G.S.R. 212 (E), dated the 26th February, 1988
7. G.S.R. 943 (E), dated the 21st June, 1976	52. G.S.R. 344 (E), dated the 4th March, 1988
8. G.S.R. 135 (E), dated the 7th January, 1978	53. G.S.R. 388 (E), dated the 14th April, 1988
9. G.S.R. 304 (E), dated the 29th May, 1978	54. G.S.R. 462(E), dated the 2nd May, 1988
10. G.S.R. 316 (E), dated the 18th May, 1979	55.G.S.R. 639 (E), dated the 23rd May, 1988
11. G.S.R. 4118 (E), dated the 29th December, 1979	56. G.S.R. 683, dated the 7th June, 1988
12. G.S.R. 1256 (E), dated the 13th May, 1980	57.G.S.R. 624 (E), dated the 29th June, 1988
13. G.S.R. 490 (E), dated the 26th June, 1980	58.G.S.R. 633 (E), dated the 1st July, 1988
14. G.S.R. 491 (E), dated the 26th June, 1980	59. G.S.R. 684 (E), dated the 8th July, 1988
15. G.S.R. 380 (E), dated the 5th June, 1981	60.G.S.R. 866 (E), dated the 26th September, 1988
16. G.S.R. 409 (E), dated the 26th September, 1981	61. G.S.R. 1022 (E), dated the 31st December, 1988
17. G.S.R. 59 (E), dated the 11th February, 1982	62. G.S.R. 14 (E), dated the 4th January, 1989
18. G.S.R. 411 (E), dated the 13th May, 1982	63. G.S.R. 68(E), dated the 10th January, 1989
19. G.S.R. 417(E), dated the 22nd May, 1982	64. G.S.R. 180(E), dated the 24th February, 1989
20. G.S.R. 520(E), dated the 10th August, 1982	65. G.S.R., 223(E), dated the 28th February, 1989
21. G.S.R. 33(E), dated the 20th January, 1983	66. G.S.R. 180(E), dated the 1st March, 1989
22. G.S.R. 49(E), dated the 2nd February, 1983	67.G.S.R. 314(E), dated the 1st May, 1989
23. G.S.R. 92(E), dated the 21st March, 1983	68. G.S.R. 435(E), dated the 9th June, 1989
24. G.S.R. 444(E), dated the 23rd March, 1983	69. G.S.R. 478(E), dated the 24th June, 1989
25. G.S.R. 37(E), dated the 17th January, 1984	70. G.S.R. 639(E), dated the 26th August, 1989
26. G.S.R. 1652(E), dated the 19th May, 1984	71. G.S.R. 804(E) dated the 12th October, 1989
27. G.S.R. 637(E), dated the 16th April, 1986	72. G.S.R. 821(E), dated the 16th October, 1989
28. G.S.R. 329, dated the 3rd May, 1986	73.G.S.R. 898, dated the 2nd December, 1989
29. G.S.R. 461, dated the 14th June, 1986	74. G.S.R. 965, dated the 12th December,1989
30. G.S.R. 2420, dated the 28th June, 1986	75.G.S.R.1077(E), dated the 29th December, 1989
31. G.S.R. 436(E), dated the 24th July, 1986	76.G.S.R. 1078(E), dated the 29th December, 1989
32. G.S.R. 2460(E), dated the 24th July, 1986	77.G.S.R. 967(E), dated the 30th December, 1989
33. G.S.R. 3677 (E), dated the 25th October, 1986	78.G.S.R. 198(E), dated the 5th February, 1990
34. G.S.R. 1333(E), dated the 29th December, 1986	79. G.S.R.100(E), dated the 1st March, 1990
35. G.S.R. 85(E), dated the 6th February, 1987	80. G.S.R. 197(E), dated the 5th March, 1990
36. G.S.R. 548(E), dated the 28th February, 1987	81. G.S.R. 312(E), dated the 5th April, 1990
37. G.S.R. 379(E), dated the 10th April, 1987	82. G.S.R. 358(E), dated the 30th April, 1990
38. G.S.R. 265(E), dated the 11th April, 1987	83. G.S.R. 379(E), dated the 11th May, 1990
39. G.S.R. 480(E), dated the 29th April, 1987	84. G.S.R. 544(E), dated the 5th June, 1990
40. G.S.R. 531(E), dated the 27th May, 1987	85. G.S.R. 545(E), dated the 5th June, 1990
41. G.S.R. 438(E), dated the 6th June, 1987	86. G.S.R. 783(E), dated the 13th June, 1990
42. G.S.R. 632(E), dated the 27th August, 1987	87. G.S.R. 68(E), dated the 10th August, 1990
43. G.S.R. 688, dated the 30th August, 1987	88. G.S.R. 628(E), dated the 18th August, 1990
44. G.S.R. 807 (E), dated the 2nd September, 1987	89. G.S.R.671(E), dated the 31st August, 1990
45. G.S.R. 823 (E), dated the 15th September, 1987	90. G.S.R. 694(E), dated the 11th September 1990

91. G.S.R.783(E), dated the 12th October, 1990	136. G.S.R. 345(E), dated the 13th May, 1999
92. G.S.R. 918(E), dated the 28th November, 1990	137. G.S.R. 357(E), dated the 27th April, 2000
93. G.S.R. 622(E), dated the 20th September, 1991	138. G.S.R. 672(E), dated the 25th August, 2000
94. G.S.R. 178(E), dated the 6th April, 1992	139. G.S.R. 71(E), dated the 7th February, 2001
95. G.S.R. 79(E), dated the 4th January, 1993	140. G.S.R. 387(E), dated the 24th May, 2001
96. G.S.R. 259(E), dated the 5th March 1993	141. G.S.R. 7(E), dated the 3rd January, 2002
97. G.S.R. 420(E), dated the 17th May, 1993	142. G.S.R. 23(E), dated the 11th January, 2002
98. G.S.R. 615(E), dated the 20th September, 1993	143. G.S.R. 366(E), dated the 14th May, 2002
99. G.S.R. 616(E), dated the 16th September, 1993	144. G.S.R. 381(E), dated the 24th May, 2002
100. G.S.R. 778(E), dated the 27th December, 1993	145. G.S.R. 612(E), dated the 2nd September, 2002
101. G.S.R. 43(E), dated the 21st January, 1994	146. G.S.R. 637(E), dated the 11th September, 2002
102. G.S.R. 193(E), dated the 18th February, 1994	147. G.S.R. 705(E), dated the 4th September, 2003
103. G.S.R. 152(E), dated the 26th March, 1994	148. G.S.R. 514(E), dated the 10th August, 2004
104. G.S.R. 484(E), dated the 2nd June, 1994	149. G.S.R. 670(E), dated the 14th October, 2004
105. G.S.R. 502(E), dated the 8th June, 1994	150. G.S.R. 292(E), dated the 13th May, 2005
106. G.S.R. 793(E), dated the 7th November, 1994	151. G.S.R. 30(E), dated the 20th January, 2006
107. G.S.R. 836(E), dated the 5th December, 1994	152. G.S.R. 466(E), dated the 8th August, 2006
108. G.S.R. 860(E), dated the 21st December, 1994	153. G.S.R. 487(E), dated the 18th August, 2006
109. G.S.R. 873(E), Dated the 21st December, 1994	154. G.S.R. 663(E), dated the 25th October, 2006
110. G.S.R. 931(E), dated the 26th December, 1994	155. G.S.R. 210(E), dated the 20th March, 2007
111. G.S.R.121(E), dated the 24th February, 1995	156. G.S.R. 511(E), dated the 27th July, 2007
112. G.S.R. 342(E), dated the 18th April, 1995	157. G.S.R. 532(E), dated the 3rd August, 2007
113. G.S.R. 484(E), dated the 14th June, 1995	158. G.S.R. 775(E), dated the 18th December, 2007
114. G.S.R. 736(E), dated the 13th November, 1995	159. G.S.R. 22(E), dated the 9th January, 2008
115. G.S.R. 737(E), dated the 13th November, 1995	160. G.S.R.59(E), dated the 25th January, 2008
116. G.S.R. 926(E), dated the 20th November, 1995	161. G.S.R. 238(E), dated the 28th March, 2008
117. G.S.R. 764(E), dated the 29th November, 1995	162. G.S.R. 400(E), dated the 25th May, 2008
118. G.S.R. 783(E), dated the 7th December, 1995	163. G.S.R. 588(E), dated the 11th August, 2008
119. G.S.R. 201(E), dated the 7th May, 1996	164. G.S.R. 864(E), dated the 18th December, 2008
120. G.S.R. 372(E), dated the 21st August, 1996	165. G.S.R. 86(E), dated the 9th February, 2009
121. G.S.R. 27(E), dated the 18th September, 1996	166. G.S.R. 282(E), dated the 24th April, 2009
122. G.S.R. 517(E), dated the 6th December, 1996	167. G.S.R. 789 (E), dated 28th October, 2009
123. G.S.R. 573(E), dated the 18th December, 1996	168. G.S.R. 310(E), dated 12th April, 2010
124. G.S.R. 267(E), dated the 19th May, 1997	169. G.S.R. 379(E) dated 5th May 2010.
125. G.S.R. 295(E), dated the 30th May, 1997	170. G.S.R. 408 (E), dated 17th May, 2010.
126. G.S.R. 318(E), dated the 10th June, 1997	171. G.S.R. 517(E) dated 16th June, 2010
127. G.S.R. 351(E), dated the 26th June, 1997	172. S.O. 10 (E) dated 4th January, 2011
128. G.S.R. 723(E), dated the 26th December, 1997	173. G.S.R. 37 (E) dated 19th January, 2011
129. G.S.R. 41(E), dated the 21st January, 1998	174. G.S.R. 58 (E) dated 31st January, 2011
130. G.S.R. 42(E), dated the 21st January, 1998	175. G.S.R. 63 (E) dated 3rd February, 2011
131. G.S.R. 406(E), dated the 26th July, 1998	176. G.S.R. 734 (E) dated 1st October, 2012
132. G.S.R. 503(E), dated the 19th August, 1998	177. G.S.R. 1211 (E) dated 13th May, 2012
133. G.S.R. 40(E), dated the 21st January, 1999	178. G.S.R. 648 (E) dated 23rd September, 2013
134. G.S.R. 46(E), dated the 22nd January, 1999	179. G.S.R. 738 (E) dated 18th November 2013
135. G.S.R. 77(E), dated the 9th February, 1999	